बर्ष :-04 **अंकः**-307 मुरादाबाद

28 February 2025

(Friday)

पृष्ठ:-08 मूल्यः- 3.00 रूपया

प्रातः कालीन अरादाबाद से प्रकाशित ভিভি य तिस्य स्ट भारत सरकार से रजिस्टर्ड RNI No.UPBIL/2021/83001

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

पीएम मोदी बोले– महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट, इसने

भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया

%एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभीभृत मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कामना करूंगा कि देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा, ऐसे ही बहती रहे।%प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर एक

सक्षिप्त समाचार

गरीबों की जेबें खाली कर रहा और अमीरों की तिजोरियां भर रहा विकसित भारत का विचार, खरगे का PM पर वार

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन

खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत दृष्टिकोण आम लोगों की जेबें खाली कर रहा है और चुनिंदा अरबपतियों की तिजोरियां भर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक कर युद्ध और व्यापार बाधाओं का सामना कर रहा है।कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को दावा किया कि सौ करोड भारतीयों के पास कोई अतिरिक्त आय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत दृष्टिकोण आम लोगों की जेबें खाली कर रहा है और चुनिंदा अरबपतियों का खजाना भर रहा है। खरगे ने कहा कि भारत एक वैश्विक कर (टैरिफ) युद्ध और व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहा है और केंद्रीय बजट में की गईं घोषणाएं निराशाजनक साबित हुई हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नरेंद्र मोदी जी, सौ करोड़ भारतीयों के पास खर्च करने के लिए कोई अतिरिक्त आय नहीं है.... हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 60 फीसदी उपभोग पर निर्भर है। 90 फीसदी लोग बुनियादी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं।%उन्होंने आगे कहा, भारत की 50 फीसदी मध्य वर्गीय करदाताओं ने पिछले दशक में वेतन में वृद्धि नहीं देखी है। ग्रामीण मजदूरी नकारात्मक वृद्धि का सामना कर रहा है। पैसा कुछ ही लोग एकत्र कर रहे हैं और आपकी नीतियां सभी लोगों के बीच आय वितरित करने में विफल

रही है।

अध्याय का संदेश दिया है और यह संदेश है %विकसित भारत% का। उन्होंने इस आयोजन को एकता का महाकुंभ करार देते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देशवासियों की ओर से किए परिश्रम से अभीभूत पीएम मोदी सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और हर भारतीय के लिए प्रार्थना करेंगे।पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ। एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभीभूत मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कामना करूंगा कि अविरल धारा, ऐसे ही बहती रहे। की तरह ही है। प्रयागराज का ये

ब्लॉग लिखा। प्रधानमंत्री ने इस

भव्य आयोजन को युग परिवर्तन

की आहट करार दिया। उन्होंने

कहा कि इस आयोजन ने भारत

की विकास यात्रा के नए



पीएम मोदी ने लिखा, %महाकुंभ संपन्न हुआ। एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्रकी चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित करोड़ देशवासियों की आस्था होता है, जैसा हमने 13 जनवरी एक साथ, एक समय में इस के बाद से प्रयागराज में एकता एक पर्व से आकर जुड़ी, वो के महाकुंभ में देखा।उन्होंने अभिभूत करता है! महाकुंभ के लिखा, 22 जनवरी, 2024 को पूर्ण होने पर जो विचार मन में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण आए, उन्हें मैंने कलमबद्ध करने प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति का प्रयास किया हैज्उन्होंने आगे से देशभक्ति की बात कही थी। लिखा, समाज के हर वर्ग और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में सभी देवी-देवता जुटे, संत-एक हो गए। ये एक भारत-श्रेष्ठ महात्मा जुटे, बाल-वृद्ध जुटे, भारत का चिर स्मरणीय दृश्य महिलाएं-युवा जुटे, और हमने करोड़ों देशवासियों में देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी।% उन्होंने लिखा, तीर्थराज प्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्रीराम और निषादराज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास देशवासियों में एकता की ये में भक्ति और सद्भाव के संगम

देश के कोने-कोने से लाखों-लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान श्रद्धालु बस एक ही धुन में था-संगम में स्नान।मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन, आधुनिक युग के विराट आयोजन की कोई दूसरा तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है, उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस, लोग महाकुंभ चल पड़े...और पवित्र संगम में

तीर्थ आज भी हमें एकता और नहीं सकता...स्नान के बाद समरसता की वो प्रेरणा देता है। असीम आनंद और संतोष से भरे पीएम मोदी ने लिखा, बीते 45 वो चेहरे नहीं भूल सकता। दिन, प्रतिदिन, मैंने देखा, कैसे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांग जन हों, जिससे जो बन पड़ा, वो साधन करके संगम तक पहुंचा। मेरे लिए ये देखना बहुत की भावनाओं का ज्वार, ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी लगातार बढ़ता ही रहा। हर संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना, एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दूढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, आगे ले जाने का दायित्व प्लानिंग और पॉलिसी समझती है और इसे लेकर एक्सपर्ट्स के लिए, नए सिरे संकल्पित भी है, समर्पित भी है। से अध्ययन का विषय बना है। इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने आज पूरे विश्व में इस तरह के वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इस महाकुंभ में हमने ये भी देखा कि जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए, वो भी इस आयोजन से भाव-विभोर होकर जुड़े। कुंभ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणी तीर्थ का जल अपने साथ लेकर गए, उस जल की कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। कितने ही लोगों का कुंभ से वापसी के बाद गांव-गांव में जो सत्कार हुआ, जिस डुबकी लगाकर धन्य हो गए। तरह पूरे समाज ने उनके प्रति श्रद्धा

आने वाली कई-कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी, उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। इसकी एक वजह ये भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए ही अंदाजा लगाया था। लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं, ये युग परिवर्तन की वो आहट है, जो भारत का नया %साथियों, महाकुंभ की इस परंपरा से, हजारों वर्षों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को बल मिलता रहा है। हर पूर्णकुंभ में समाज की उस समय की परिस्थितियों पर ऋषियों-मुनियों, विद्वत् जनों द्वारा 45 दिनों तक मंथन होता था। इस मंथन में देश को, समाज को नए दिशा-निर्देश मिलते थे। इसके बाद हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ में परिस्थितियों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा होती थी। 12 पूर्णकुंभ होते-होते, यानि 144 साल के अंतराल पर जो दिशा-निर्देश, जो परंपराएं पुरानी पड़ चुकी होती थीं*,* उन्हें त्याग दिया जाता था, आधुनिकता को स्वीकार किया जाता था और युगानुकूल परिवर्तन करके नए सिरे से नई परंपराओं को गढ़ा जाता था। 144 वर्षों के बाद होने वाले महाकुंभ में ऋषियों-मुनियों द्वारा, उस समय-काल और परिस्थितियों को देखते हुए नए संदेश भी दिए जाते थे। अब इस बार 144 वर्षों के बाद पड़े इस तरह के पूर्ण महाकुंभ ने भी हमें भारत की विकासयात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है। ये संदेश है- विकसित भारत का। उन्होंने लिखा, %जिस तरह

महायज्ञ के लिए एकता के उस जल की कुछ बूंदों ने भी महाकुंभ में एक हो गए। एक करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। कितने ही भारत-श्रेष्ठ भारत का ये चिर स्मरणीय दृश्य, करोड़ों लोगों का कुंभ से वापसी के देशवासियों में आत्मविश्वास के बाद गांव-गांव में जो सत्कार साक्षात्कार का महापर्व बन हुआ, जिस तरह पूरे समाज ने गया। अब इसी तरह हमें एक उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुकाया, वो अविस्मरणीय है। होकर विकसित भारत के ये कुछ ऐसा हुआ है, जो बीते महायज्ञ के लिए जुट जाना है। पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, कुछ दशकों में पहले कभी नहीं आज मुझे वो प्रसंग भी याद आ हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है, जो रहा है जब बालक रूप में श्रीकृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। वैसे ही इस महाकुंभ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। हमें अब इसी आत्मविश्वास से एक निष्ठ होकर, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की ये एक ऐसी शक्ति है, जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। विवेकानंद हों या श्री ऑरोबिंदो हों, हर किसी ने हमें इसके बारे में जागरूक किया था। इसकी अनुभूति गांधी जी ने भी आजादी के आंदोलन के समय की थी। आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट भविष्य लिखने जा रही स्वरूपको यदि हमने जाना होता, है।%पीएम मोदी ने लिखा, और इस शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता, तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यही शक्ति, विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है। उन्होंने लिखा, वेद से विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक, भारत की महान परंपराओं ने इस राष्ट्र को गढ़ा है। मेरी कामना है, एक नागरिक के नाते, अनन्य भक्ति भाव से, अपने पूर्वजों का, हमारे ऋषियों-मुनियों का पुण्य स्मरण करते हुए, एकता के महाकुंभ से हम नई प्रेरणा लेते हुए, नए संकल्पों को साथ लेकर चलें। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं, देश सेवा में ही देव सेवा, जीव सेवा में ही शिव सेवा के भाव से स्वयं को समर्पित करें। पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, जब मैं काशी चुनाव के लिए गया था, तो मेरे अंतरमन के भाव शब्दों में प्रकट हुए थे, और मैंने कहा था- मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसमें एक दायित्व बोध भी था, हमारी मां स्वरूपा नदियों की पवित्रता को लेकर, स्वच्छता को लेकर। प्रयागराज में भी गंगा-यमुना-सरस्वती के एकता के महाकुंभ में हर संगम पर मेरा ये संकल्प और श्रद्धालु, चाहे वो गरीब हों या दृढ़ हुआ है। स्वच्छता हमारी संपन्न हों, बाल हो या वृद्ध हो, जीवन यात्रा से जुड़ी है। हमारी देश से आया हो या विदेश से जिम्मेदारी बनती है कि नदी चाहे आया हो, गांव का हो या शहर छोटी हो या बड़ी, हर नदी को का हो, पूर्व से हो या पश्चिम से जीवनदायिनी मां का प्रतिरूप हो, उत्तर से हो दक्षिण से हो, मानते हुए हम अपने यहां किसी भी जाति का हो, किसी

सुविधा के अनुसार, नदी उत्सव जरूर मनाएं। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें। उन्होंने आगे लिखा, मैं जानता हूं, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से...मां यमुना से...मां सरस्वती से...हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा...। जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो, तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमाप्रार्थी हूं। पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, श्रद्धा से भरे जो करोड़ों लोग प्रयाग पहुंचकर इस एकता के महाकुंभ का हिस्सा बने, उनकी सेवा का दायित्व भी श्रद्धा के सामर्थ्य से ही पूरा हुआ है। यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर, इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहां ना कोई शासक था, ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। हमारे सफाईकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले, सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर, प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है, वह अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं।अंत में पीएम मोदी ने लिखा, साथियों, महाकुंभ के दृश्यों को देखकर, बहुत प्रारंभ से ही मेरे मन में जो भाव जगे, जो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हुए हैं, राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य को लेकर मेरी आस्था, अनेक गुना मजबूत हुई है। 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वो अद्भुत है। देशवासियों के इस परिश्रम से, उनके प्रयास से, उनके संकल्प से अभीभूत मैं जल्द ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा और श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है। लेकिन मुझे विश्वास है, मां गंगा की अविरल धारा की तरह, महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी।

उन्होंने लिखा, मैं वो तस्वीरें भूल से सिर झुकाया, वो सफाईकर्मियों के लिए योगी का बड़ा एलान,

१० हजार का बोनस... १६००० माह न्यूनतम

वेतन और मुफ्त इलाज की घोषणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता कर्मियों के लिए बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि पहले आठ से 11 हजार रुपये माह मिलते थे। अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16 हजार किया जाएगा। महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10 हजार का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम 16000 प्रति माह वेतन की घोषणा सभी कर्मियों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज का की है। इसके अलावा महाकुंभ में कार्यरत लाभ मिलेगा। अप्रैल निगम गठित होगा। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपये भी भेजे जाएंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को पहले आठ से 11 हजार रुपये माह मिलते थे। अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16 हजार किया जाएगा। इसके योजना से जोड़कर जन आरोग्य बीमा का भी लाभ साथ ही सभी कर्मचारियों को आयुष्मान आदित्यनाथ ने कहा, हमारी सरकार ने प्रयागराज में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाकुंभ में सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों को

10,000 रुपये का बोनस देने का फैसला किया है। हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि अप्रैल से सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपये का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा... अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सीधे बैंक हस्तांतरण दिया जाएगा और उन सभी को स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे बेहतर कल्याण और सहायता सुनिश्चित होगी। 🕒 उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वयित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने आज पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार समेत प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों और अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन किया।उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज में नाव चालकों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा, पंजीकरण के बाद हर नाव चालक को 5 लाख रुपये की बीमा योजना दी जाएगी। नाव खरीदने के लिए धनराशि दी जाएगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा।

सपादकीय Editorial

Counterfeit coins of

science emptiness Here the coins of reality turned out to be counterfeit, we had tossed them only to our advantage. 66 senior secondary schools of the state turned out to be zero in science laboratories, because we had to show the medal of science. The surprising thing is that in Himachal, development for medals and in the history of medals, the budget is completely destroyed. These 66 science centers did not close just like that, but they have been rejected by our need, our knowledge, our concern and our arrogance. The same science center is losing in the premises of the central university and will lose more in the future. These aspects of education are the rude and selfish politicians, who play institute-institute like football. Now medical colleges have started losing and if there is doubt, then ask why the wings of the medical university are hurt? Why have all the engineering colleges been ruined in the trouble of the technical university, why have B.Ed colleges left education helpless. These placards will one day become coffins, how long will you keep the desire alive in fake attire. In the face of shamelessness, if possible, after ten years. ask why those who evicted the Central University from Dharamshala had built the tombs of education. We not only see the tombs of science and the coffins of planning in 66 schools, but we can also choose the tombs of knowledge and study there. The surprising thing is that in these very schools, 201 lecturers were caught relaxing in the science study rooms. Whom to praise and whom to choose as the trust of the department. As schools are closing, instead of the reasons for this, even today the society is looking for a reason to save them. It is announced from the pillars of politics that useless schools are also the trust of the environment. This war is not easy and the most difficult thing is to keep one's own conduct disciplined. If 66 science senior secondary schools can prove to be useless. then it does not mean that there was any fault of education. Here our resolution and model have lost. Here the desire of the parents and the demand of the employment market have also lost. One subject in schools should be focused on employment information, understanding of the environment, the possibilities of rural economy and new possibilities of selfemployment. Our schools are not so proficient that they can connect language knowledge with the values ??of practical life If the curriculum is taught to make children proficient on employment possibilities in retail marketing till class 12, then the direction will be decided by schooling itself Our children have been seated in science classes for the last few decades, but a scientific outlook has not been developed Later, in agricultural and horticultural universities too, instead of a scientific outlook, a craving for departmental jobs was created. This is the reason why Himachal is a silent spectator state in the era of start-ups and innovation. Even today, the message of our problems or prosperity is linked to government jobs instead of scientific zeal Recently, Hariman Sharma of Bilaspur was awarded the Padma Shri award in the field of horticulture, but this is his personal success. Neither any school, nor any college nor Palampur-Solan University has the capability or will have in the future to produce a Hariman Sharma. On the other hand, many job opportunities in government services in India have nothing to do with science, so we need top-notch senior secondary schools that can teach subjects like history, geography, economics, sociology fine arts, theatre and similar arts. Children are now bored of studying medicine and

engineering.

Rising temperature poses a threat, will have adverse effects on people's health and economy

Parasites like mosquitoes are being born due to rising temperatures. Traditional medicines are proving ineffective on them. With the increase in heat due to the decrease in moisture on the ground, the risk of forest fires also increases. If the heat continues to increase like this, the days of heatwaves will also increase which will affect the health and economic conditions of a large population of the country. This year, in the first week of February itself, heat started showing its effect in the plains. Keep in mind that the last year was very hot for India, in which the

minimum average normal every month. This sweetness of spring should be Pradesh, Chhattisgarh, Uttar temperature is being recorded parts of Vidarbha of Andhra Pradesh, Odisha, normal for the temperature in cross 28 degrees. In the past increased, it was assumed that Nina, but this time La Nina changing mood of the weather strengthening grip of climate international meteorological Change Service, the world's this year was recorded at 0.09 degrees more than the happened when the La Nina



temperature was recorded above year, on the days when the felt, the mercury rose in Madhya Pradesh etc. and the maximum between 35-38 degrees in some Maharashtra, Telangana, coastal Kerala and Daman-Diu. It is not Delhi and its surrounding areas to few years, when the heat suddenly it was the effect of El Nino or La was ineffective. It is clear that the pointing towards the change. According to the organization Copernicus Climate average temperature in January 13.23 degrees Celsius, which was hottest January of last year. This effect developed in the Pacific

Ocean. The biggest reasons for the change in weather from South America to India are the El Nino and La Nina effects. El Nino is related to heat and drought in India and Australia, while La Nina is the carrier of good monsoon. Both these events are related to the coast of faraway Peru (Eastern Pacific) and the eastern coast of Australia (Western Pacific). The speed of the wind takes these effects far. It is important to know here that the sun's rays fall directly on the sea at the equator. This area gets uninterrupted sunlight for 12 hours, due to which the heat of the sun remains on the surface of the earth for a longer time. That is why there is more heat in the Mediterranean region or the Central Pacific region. This affects the temperature of the sea surface. Generally, in normal conditions, the Mediterranean winds blow from east to west and carry the heated sea water towards the eastern sea coast of Australia. Steam is formed from the hot water and clouds are formed from it. As a result, there is good rainfall around the eastern coast. When the hot winds laden with moisture rise up, their moisture is released and they become cold. Then the cold winds blowing from west to east come down on the sea coast of Peru and its surroundings. That is why the hot winds rising from the sea of ?? Australia collide with it. The cyclone formed by this is called 'Walker Cyclone'. In El Nino conditions, the westerly winds become weak and the warm water of the sea returns and collects on the coasts of Peru. In this way, the water level of the sea rises up to 90 centimeters. As a result, evaporation takes place and rain clouds are formed. This causes heavy rainfall in Peru, but due to its adverse effect on monsoon winds, drought conditions are created from Australia to India. During the La Nina effect, the storm winds that normally blow from east to west in the Mediterranean region push the warm water of the Peruvian coast towards Australia. Due to this, the water level on the Peruvian coast falls very low, due to which the cold water of the depth of the sea replaces the little warm water. These days La Nina is active, but surprisingly, neither is there rain in India nor is there enough snowfall on the mountains. On the contrary, the temperature is increasing rapidly. If the heat of the weather continues to increase like this, then the biggest loss will be to agriculture. Wheat grains will become weak and gram and mustard crops will also ripen before time. The time for pollination of flowers in apple and litchi trees will be less, due to which the process of formation and ripening of fruits will be affected. If the temperature increases by one degree Celsius, it reduces the income of farmers by 6.2 percent during the Kharif season and by six percent during the Rabi season in unirrigated areas. Similarly, if there is an average decrease of 100 mm in rainfall, the income of farmers falls by 15 percent during the Kharif season and seven percent during the Rabi season. Now this danger is looming. Parasites like mosquitoes are being born due to increasing temperature. Traditional medicines are proving ineffective on them. Due to the decrease in moisture on the earth, the risk of forest fires also increases as the heat increases. If the heat continues to increase like this, the days of heat waves will also increase, which will affect the health and economic conditions of a large population of the country. In such a situation, the government needs to make its policies in accordance with the warming weather. First of all, methods of reducing greenhouse gases should be strictly implemented. Then energy and water conservation should be on priority basis. Finally, an action plan for relief and alternative livelihood for the hardworking people affected by this should be made at the village level.

If Trump takes Russia out of China's camp, US-Russia relations improve, it will be in India's interest

In the past, Nixon was successful in his policy because then Europe also agreed with America. At present, the differences between America and Europe are so deep that even if American pressure on Russia reduces, Russia's economic and technical relations with Europe will remain bitter. Especially until Russia does justice to Ukraine according to Europe. US President Donald Trump has taken some unexpected steps to overcome the years-long rift with Russia and improve relations. This has caused a big stir on the global geopolitical scene. His such unusual initiative has created cracks within the NATO alliance itself. This has made Western countries apprehensive that America is no longer willing to fulfill the expected responsibility towards the defense of Ukraine and Europe. There is an atmosphere of disappointment in European countries due to Trump sidelining Europe in a way and reconciliation with Russian President Vladimir Putin, who is the biggest target of liberals. The other party worried by this change in Trump's attitude is China. Issues like the existence of Ukraine and the outcome of its three-year-long war with Russia are important for the world order, but the more important question is whether America can succeed in getting Russia out of the clutches of China? Ever since Trump has adopted a soft stance with Putin by reversing the policies of the previous Joe Biden administration, some commentators are comparing it to 'Reverse Nixon' i.e. the strategic reversal of the then US President Richard Nixon in the eighth decade of the last century. Nixon had joined hands with Maoist China to counter the Soviet Union. This created a rift in the Russia-China Communist alliance. As a result, America became the winner of the Cold War. On the same lines, it is now believed that Trump is also moving on a different path with the intention of weakening Russia's close friendship with China by reducing tension with it. In this context, US Defense Secretary Pete Hegseth has said, 'America is prioritizing preventing a war with China in the Pacific region, realizing the reality of the problem associated with maintaining military resources in both Europe and Asia, and wants to march from Europe to ensure that the resistance to China in Asia does not fail.' This means that by adopting a positive attitude towards Russia, ending the Ukraine war and handing over the responsibility of Europe's security to European countries, America will try to focus its military and strategic energy against China in the Indo-Pacific. Earlier, the Biden administration had also termed China as America's main rival, but due to the Ukraine war, America got entangled in the security matters of Europe and could not compete with China in Asia. As far as the Ukraine war is concerned, it has benefited China. Due to this, economic sanctions and pressure of Western countries on Russia increased, due to which Russia became highly dependent on China. In this situation, Moscow and Beijing had declared 'unlimited friendship'. Under the 'New Cold War', China and Russia had started fighting against America by forming a strong united front and this gave new wings to China's global ambitions and morale. The second advantage of the Ukraine war to China was that America's attention was focused on its allies in Europe. Due to this, American allies who were afraid of China's expansionism in Asia were not getting enough material and help. Although the security of the Atlantic and Pacific regions are interrelated issues, but America declaring Russia a dangerous enemy was giving China a lot of freedom and convenience to do as it pleases in Asia. It is in America's interest to keep Russia away from the Chinese clutches and to deal strictly with China, but it is not easy to give concrete shape to this policy. American Vice President JD Vance has claimed that Russia is at a loss in becoming China's 'step child' or 'younger brother', but in the same context he has admitted that there are strong economic relations between Russia and China, which cannot be broken suddenly. Even if the US removes all economic sanctions and technical restrictions imposed on Russia and also signs contracts for the development of Russia's mineral wealth, Putin may still be apprehensive that these will not be permanent measures. The reason is that if Trump's successor, who was banned for four years, revives the Western liberal ideology and adopts the policy of reining in Russia, then Russia will have to face the consequences. In the past, Nixon was successful in his policy because then Europe also agreed with the US. At present, the differences between the US and Europe are so deep that even if the US pressure on Russia reduces.



छात्रा की पिटाई मामले में आया नया मोड़, छात्रा की आंख में पहले से थी दिक्कत...जांच के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंचीं सिटी मजिस्ट्रेट

मुरादाबाद- भोगपुर मिठौनी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा कक्षा 3 की छात्रा की



पिटाई करने
से आंख की
रोशनी चले
जाने का
मामला
सुर्खियों में
बना हुआ है।
डीएम ने
अब मामले
की जांच
सिटी
मिजिस्ट्रेट
किंशा क

खंड शिक्षा अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट जांच के लिए प्राथिमक विद्यालय भोगपुर मिठोनी पहुंचीं हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्कूल कैंपस जाकर पूरे घटनाऋम को समझा। दो दिन पहले छात्रा की मां ने डीएम ऑफिस पहुंच कर शिकायती पत्र दिया था। छात्रा की मां ने डीएम को बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उनकी बच्ची की पिटाई कर दी थी और थप्पड़ लगने से आंख की रोशनी चली गई है। उन्होंने अपनी बेटी का सरकारी नेत्र चिकित्सालय और निजी नेत्र चिकित्सकों से लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार कराया है। जिसमें पता चला है कि छात्रा अब उस आंख से नहीं देख सकेगी। न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिला प्रशासन ने बच्ची को इलाज के लिए हायर सेंटर भी भिजवा दिया है। लेकिन, अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। स्कूल की प्रिंसिपल और स्टाफ का कहना है कि छात्रा की आंख में पहले से ही दिक्कत थी कुछ दिन पहले खेलते समय दूसरी बच्ची की कोहनी लगने से चोट जरूर लग गई थी। जिसे कुछ लोगों ने मुद्दा बना कर इस तरह की शिकायत की है। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो सिटी मजिस्ट्रेट ने स्कूल कैंपस जाकर पूरे घटनाऋम को समझा हैं।

महिला अधिवक्ता पर केमिकल अटैक, वकीलों ने कोतवाली पर किया हंगामा, कहा-आरोपियों को गिरफ्तार करो

मुरादाबाद ठाकुरद्वारा में महिला अधिवक्ता पर दो अज्ञात लोगों ने केमिकल फेंककर हमला किया।



घटना के पीछे एक
मुकदमे की पैरवी
को लेकर रंजिश
की आशंका जताई
जा रही है।
आक्रो शि त
वकीलों ने
कोतवाली पर
प्रदर्शन कर
आरोपियों की
गिरफ्तारी की मांग
की। ठाकुरद्वारा में
बृहस्पतिवार सुबह
महिला अधिवक्ता
पर अज्ञात

कोतवाली पर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ठाकुरद्वारा निवासी महिला अधिवक्ता शशि वाला करीब दस बजे किसी काम से बाहर निकली थीं इसी दौरान पीछे से दो अज्ञात लोगों ने उन पर केमिकल डाल दिया और फरार हो गए। हमले के पीछे एक युवती के मुकदमे की पैरवी करने की रंजिश बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना से आऋोशित अधिवक्ताओं ने कोतवाली पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन से हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। बाइक में टक्कर मारने वाले कार चालक के खिलाफ केस- बिलारी थाना क्षेत्र में सिरसी रोड पर बीती नौ फरवरी को बाइक में टक्कर मारने वाले कार चालक के खिलाफ बुधवार शाम थाना बिलारी में रिपोर्ट दर्ज की गई। ग्वारऊ गांव निवासी महबूब खान की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका बेटा मोईन अशरफ अपने सहपाठी अनुराग सिंह के साथ टयूशन पढ़कर बाइक से वापस आ रहा था। रास्ते में सिरोही बैक्केट हॉल के निकट बाइक रोककर मोइन अशरफ और अनुराग अपने सहपाठी मोहम्मद शमी निवासी ग्वालखेड़ा से बात करने लगे। इसी दौरान सिरसी की ओर से आई तेज रफ्तार कार की टक्कर से तीनों छात्र घायल हो गए। बेटे मोइन अशरफ का निजी अस्पताल में उपचार कराने के दौरान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी हुई। पुलिस ने ईको कार के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नगर निगम में नौकरी के नाम पर ठगी, फर्जी नियुक्तिपत्र तैयार कर करवाया काम, पुलिस को आरोपी की तलाश

मुरादाबाद नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों से लाखों रुपये ठग लिए गए



लोगों को फर्जी नियुक्तिपत्र बांटकर मोहल्लों में सफाई भी कराई गई। पुलिस अब आरोपी के साथियों की तलाश कर रही है। मुरादाबाद निगम निगम में 100 से ज्यादा लोगों की नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार आरोपी विजय बाबू बहुत शातिर निकला। उसने ठगी के लिए लोगों को फर्जी नियुक्तिपत्र तक बांटे और मोहल्लों में काम भी कराया। दो महीने वेतन

भी दिए लिकिन न तो नगर निगम को भनक लगी और न ही पुलिस को। अब पुलिस नियुक्तिपत्र तैयार करने वाले विजय के साथियों की तलाश कर रही है। गलशहीद थाना क्षेत्र के भूड़ा का चौराहा निवासी ममता और अन्य महिला और युवाओं ने गलशहीद थाने में लाइन पार निवासी विजय बाबू के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने बताया कि विजय बाबू ने खुद को नगर निगम कर्मचारी बताकर उनसे संपर्क किया था। आरोपी ने सभी से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लेकर नियुक्तिपत्र दिए थे। इसके बाद आरोपी ने शहर के कई मोहल्लों में सफाई का कार्य भी कराया। नगर निगम को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना नहीं आरोपी ने पीड़ितों के खाते में दो माह का वेतन भी भेज दिया था। इसके बाद वेतन मिलना बंद हुआ तो उन्हें शक हो गया। आरोपी से संपर्क किया तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया। सफाई का कार्य किस मोहल्ले में किया जाना हैं। इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। अब पुलिस विजय के अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। केस में शामिल हो सकते हैं और नाम-विभाग के लोग उसके साथ जुड़े हैं या फिर अन्य लोग हैं। जिन लोगों ने नियुक्तिपत्र बनाए थे। उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि इस मामले में विवेचना जारी है। विवेचना में जो भी नाम सामने आएंगे। उन्हें भी केस में शामिल किया जाएगा।

संभल में अब तक हुए सभी दंगों की रिपोर्ट हो रही तैयार, 1978-1986 और 1992 पर विशेष फोकस

मुरादाबाद संभल पुलिस 1978, 1986 और 1992 में हुए दंगों की जांच कर रही है। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पीड़ितों की गुहार के बाद इससे जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। संभल पुलिस शहर में 1978,

1986 और 1992 में हुए दंगों की जांच पड़ताल करने में जुटी है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजा जाएगी। एसपी का कहना है कि शासन स्तर से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर ही उन तीनों दंगों की रिपोर्ट तैयार हो रही है।बताया कि मुकदमों की स्थिति को भी देखा जाएगा 23 जनवरी को न्यायिक जांच आयोग के सामने कुछ लोग पहुंचे थे। उन्होंने 1978, 1986 और 1992 के दंगों से पीड़ित होने की बात कही थी। साथ ही बताया था कि उन्हें इन तीनों दंगों में जान और माल का नुकसान हुआ था लेकिन न्याय नहीं मिला इन परिवारों ने जांच कराने के लिए मांग उठाई थी। इसी मांग को मानते हुए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। एसपी का कहना है कि दंगों में कितने लोगों के खिलाफ



रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उन मुकदमों में क्या स्थिति है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद शासन को भेजी जाएगी। रिकॉर्ड मुरादाबाद में है। इसलिए समय लग रहा है। 1978 के दंगे के बाद पलायन के बाद मजबूर हुए थे हिंदू- 1978 के दंगे में हिंदुओं की हत्याएं की गई थीं। कई ऐसे परिवार पुलिस-प्रशासन के सामने आए जिन्होंने बताया कि उनके परिवार में किसकी जान गई। उस समय की कुछ तस्वीरें भी दिखाई गईं। उन्होंने यह भी बताया था कि हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए थे और पलायन के लिए मजबूर हुए थे। खग्गू सराय में प्राचीन शिव मंदिर भी उसी दंगे के बाद से बंद हो गया था। इस इलाके में जो हिंदू परिवार थे वह पलायन कर गए थे। 1978 के दंगे में 16 मुकदमें दर्ज हुए थे। जिसमें हत्या, लूट, आगजनी, बलवा और अन्य कई गंभीर आरोप शामिल थे। 1993 में दर्ज मुकदमों में से आठ मुकदमें वापस हो गए थे। बाकी आठ मुकदमों की स्थित की जानकारी पुलिस प्रशासन को ही स्पष्ट नहीं हो सकी है।

संभल बवाल: पकड़ में नहीं आ सके 14 आरोपी.. अब घरों की होगी कुर्की, 10 को गिरफ्तार कर पुलिस भेज चुकी जेल

मुरादाबाद संभल बवाल में शामिल आरोपियों के खिलाफ नखासा थाना पुलिस कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी में लगी है। कुर्की की कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ की जाएगी, जिनके खिलाफ गैरजमानती वारंट न्यायालय से जारी हो चुके हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि इन आरोपियों की तलाश में टीम लगी है लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इसलिए अब इन आरोपियों के घर की कुर्की करेंगे। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था। इसी दौरान भीड़ ने बवाल कर दिया था। पांच लोगों की जान गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।जामा मस्जिद के नजदीक का बवाल पुलिस ने किसी तरह शांत कराया तो नखासा तिराहा और हिंदूपुरा खेड़ा में बवाल किया गया था। उपद्रवियों ने आगजनी और पुलिस पर फायिरांग की थी। एसपी और डीएम पर जानलेवा हमला किया था। इस इलाके के बवाल में शामिल 24 आरोपियों के खिलाफ पुलिस गैरजमानती वारंट न्यायालय से लेकर आई थी। इसमें 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है लेकिन 14 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। एसपी का कहना है कि जिन आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कराया गया था। और वह अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके घर की कुर्की की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू करा दी है। न्यायालय की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कराया जाएगा। 450 की फोटो से तलाश की जा रही- 24 नवंबर 2024 को बवाल तीन स्थानों पर हुआ था।

पहला बवाल जामा मस्जिद के नजदीक हुआ था। जहां पांच लोगों की जान गई थी। दूसरा बवाल नखासा तिराहे पर हुआ था। जहां पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। इसके बाद हिंदूपुरा खेड़ा में बवाल हुआ था। इन तीनों ही स्थानों पर पुलिस-प्रशासन की ओर से वीडियो बनाया गया था और फोटो भी लिए थे। एसपी ने बताया कि वीडियो और फोटो के आधार पर 450 चेहरे सामने आए हैं। उन चेहरों की तलाश में पुलिस की टीमें काम कर रही हैं।अभी तक नहीं मिला दाढ़ी वाला शख्स - कोतवाली पुलिस ने 74 उपद्रवियों के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं। इसमें दाढ़ी वाला शख्स साजिशकर्ताओं में शामिल होने की चर्चा है। लेकिन यह शख्स कहां कहा है। इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। अन्य 73 चेहरे भी पुलिस की पहचान में नहीं आए हैं। एसपी का कहना है कि सूचनाएं मिल रही हैं लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। इसलिए पुलिस अभी पहचान कराने में जुटी है।

संक्षिप्त समाचार

प्रेमजाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म, बनाई अश्लील वीडियो...पीड़िता ने लगाई

न्याय की गुहार

मुरादाबाद- सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ रामपुर के युवक ने होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। सिविल लाइंस थाना के कैंप चौकी क्षेत्र निवासी युवती ने एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि साल 2019 में वह अपने बुआ की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव गई थी। आरोप लगाया कि वहां उसी गांव के एक युवक से मुलाकात हुई। मीठी मीठी बातों से युवक ने प्रेमाजल में फंसा लिया। पीड़िता के अनुसार वह घर आ गई फिर भी युवक ने पीछा नहीं छोड़ा। आरोप लगाया कि एक दिन आरोपी ने उसे बुधबाजार के होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो भी बना ली। विरोध करने पर आरोपी ने शादी करने का भरोसा दिया। इसके बाद आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार बीती 3 फरवरी से रात लगभग 7न्00 बजे उसने आरोपी को कॉल करके शादी के लिए कहा तो उसने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने धमकी दी कि यदि शादी का दबाव बनाया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। पीड़िता के अनुसार उसने आरोपी के बड़े भाई से शिकायत की तो उसने जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी के जीजा से बात की तो उसने कहा कि 20 लाख रुपये दो तो मैं शादी करवा दूंगा। पीड़िता का आरोप है कि अब भी आरोपी युवक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। इससे परेशान होकर एसएसपी से शिकायत की। इस मामले में एसएसपी ने थाना सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक को जांच कर कार्रवाई के आदेश

सात दिन के लिए फिर बंद होगा रामगंगा पुल, पैदल भी नहीं गुजर सकेंगे, दिल्ली-लखनऊ जाने के लिए यह रूट

मुरादाबाद रामगंगा पुल बृहस्पतिवार से फिर मरम्मत कार्य के लिए एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा। इस बीच छोटे-बड़े सभी वाहन वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि पैदल जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। समीक्षा के बाद पुल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा।करीब सात दिन बाद बृहस्पतिवार से रामगंगा पुल दोबारा बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान पुल की मरम्मत का कार्य चलेगा। छोटे-बड़े सभी वाहन बदले मार्ग से चलाए जाएंगे। पैदल भी लोगों के अवागमन पर रोक रहेगी। एक सप्ताह बाद लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी समीक्षा करेंगे इसके बाद तय किया जाएगा कि पुल पर यातायात कब चालू होगा। मुरादाबाद से रामपुर, काशीपुर और बाजपुर को जोड़ने वाला रामगंगा पुल मरम्मत के लिए पांच फरवरी को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सभी तरह के वाहन दूसरे मार्गों से गुजारे जा रहे थे।महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए 20 से 26 फरवरी के बीच दोपहिया वाहनों और कांवड़ियों के लिए खोल दिया गया था। कांवड़ यात्रा के बाद अब फिर से पुल पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह से पुल एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान कार और बाइकें जामा मस्जिद पुल से गुजारी जाएंगी। भारी वाहन और रोडवेज बसें हनुमान मूर्ति, पंडित नगला होकर जाएंगी। हरिद्वार और बिजनौर से आने वाली रोडवेज बसें डिपो तक आएंगी। जामा मस्जिद पुल पर फिर बढ़ेगा वाहनों का दबाव - रामगंगा पुल पर दोपहिया वाहनों का संचालन बंद होने से जामा मस्जिद पुल पर फिर से वाहनों का दबाव बढ़ेगा। जिसे देखते हुए गलशहीद, मुगलपुरा और कटघर पुलिस के अलावा एसएसपी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। गुलाबबाड़ी तक चलती रहेंगी ई-बसें- यात्रियों को कोई परेशान न हो, इसके लिए ई-बसें रामगंगा पुल तक जाएंगी और वहीं से वापस हो जाएंगी। यह बसें टीएमयू से गुलाबबाड़ी और अगवानपुर से गुलाबबाड़ी तक चलेंगी।दर्ज कराने में देरी हुई। पुलिस ने ईको कार के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए०एच०प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

यात्रा के प्रचार वाहन को किया रवाना

क्यूँ न लिखूँ सच

कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाई-बदायूँ की ओर से संचालित वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री

कृषि सिंचाई योजना 2.0 के प्रचार प्रसार हेतु वाटरशेड यात्रा अभियान के तहत वाटरशेड विकास यात्रा प्रचार वाहन गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख आसफपुर ओम कृष्ण सागर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर परियोजना क्षेत्र के लिये रवाना किया। विकास खण्ड आसफपुर के माइक्रोवाटरशेड तखौरा में मुख्य अतिथि माननीय



ब्लॉक प्रमुख द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। प्रभात फेरी, भूमि पूजन, पौध रोपण, श्रमदान एवं जल संरक्षण पर स्कूली छात्रों द्वारा निबंध/पोस्टर प्रतियोगिता करायी गयी। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख आसफपुर के द्वारा पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। सिद्ध बाबा इण्टर कॉलेज, सराय बरौलिया के एन0एस0एस0 छात्रों के द्वारा श्रमदान हेतु प्रतिभाग किया गया। तथा ग्राम-तखौरा में पेरीफेरल बांध एवं मार्जिनल बांध का लोकार्पण माननीय ब्लॉक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान श्री चन्द्रगुप्त द्वारा किया गया। ग्राम कलरावाला में प्रभात फेरी, भूमि पूजन, पौध रोपण श्रमदान एवं जल संरक्षण पर स्कूली छात्र द्वारा निबंध प्रतियोगिता करायी गयी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को ग्राम प्रधान कलरावाला सलीम खाँ द्वारा पुेरस्कार, प्रशस्ति पत्र वितरित किये गये। ग्राम कलरावाला में नाडेप का लोकार्पण ग्राम प्रधान द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख द्वारा पौध रोपण का सन्देश भी दिया गया तथा वृक्षों को जीवित रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक मनोज कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी श्री सतीश चन्द्र यादव, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक(ग्रुप-ए) राज कुमार एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मुड़िया अहमद नगर में तीसरे दिन नगर में निकली भगवान शिव की शोभायात्रा

बरेली रिठौरा। थाना इज्जतनगर के गांव मुंडिया अहमदनगर में संतोषी माता मंदिर परिसर में तीसरे

दिन भगवान शिव की शोभायात्रा व अन्य आकर्षण झांकियां निकाली जिसे मेला कमेटी अध्यक्ष वेद प्रकाश पटेल ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया शोभायात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया उसके उपरांत वृंदावन से आई श्री राधा करूणामयी रासलीला संस्था द्वारा कालिया नाग नागिन का मंचन किया



गया। जिसमें सभी भक्त भाव- विभोर हो गए । शोभायात्रा में पुलिस प्रशासन काफी सतर्क दिखा इस मौके पर सुनील पटेल, सचिन पटेल जिला उपाध्यक्ष विश्व हिन्दू महासंघ , राधेश्याम पटेल अरविंद भदौरिया , सतीश चन्द्र शर्मा , प्रभाकांत मिश्रा , राजाराम कातिब , महेंद्र सिंह भदौरिया, महेंद्र पाल , रोहित दिवाकर ,ओमपाल पटेल , नरेंद्र पटेल , अर्जुन यादव , विपिन आदि ग्रामीण

भारतीय किसान यूनियन का पटनी प्रतापपुर टोल पर हंगामा

क्यूँ न लिखूँ सच -अश्वनी नामदेव

शामली झिंझाना। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष के साथ टोल प्लाजा के लोगों ने



अभद्रता की, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कालेंदर मालिक अपनी टीम के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे पदाधिकारी के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ हंगामा कर दिया। बाद में टोल कर्मियों द्वारा गलती मानने के बाद मामला शांत हुआ। बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कालेंदर मिलक अपनी टीम के साथियों के साथ पटनी प्रतापपुर स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गत दिवस हमारे तहसील अध्यक्ष सरदार साहब सिंह के साथ टोल कर्मियों द्वारा बदतमीजी की गई थी, इसी को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने टोल पर हंगामा कर दिया। कालेंदर मिलक ने कहा कि टोल की 5 किलोमीटर की परिधि में किसी भी किसान से टोल नहीं लिया जाएगा, वहीं जो कमर्शियल वाहन हैं वह उनसे टोल टैक्स वसूल करे हमे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी किसान से जबरदस्ती टोल वसूल किया या अभद्रता की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हंगामा कर रहे हैं किसानों के बीच पहुंचे टोल मैनेजर अमित बालियान ने टोल कर्मियों द्वारा की गई अभद्रता के लिए गलती मानी तब जाकर किसान शांत हुए। इस मौके पर गठवाला खाप के बाबा श्याम सिंह, अरविंद खोड़सम, साहब सिंह, आकाश तोमर, बिल्लू राणा, जयवीर मुखिया, मांगेराम पटनी, उपेंद्र मलिक सहित कई दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हरी झण्डी दिखाकर वाटरशेड विकास लायन्स क्लब मेल्विन जोन्स द्वारा निःशुल्क ओजोन ऑक्सीजन थेरेपी चिकित्सा शिविर

क्यूँ न लिखूँ सच

बरेली। लायन्स क्लब बरेली मेल्विन जोन्स, बरेली के परिचय की बात करे तो लायन्स क्लब मेल्विन जोन्स बरेली लगभग 35 वर्ष पुराना सामाजिक सेवा का क्लब है। इसकी स्थापना 1989-90 में हुई

थी। संस्था द्वारा सन्त रविदास सरस्वती शिशु मन्दिर को अंगीकृत किया हुआ है। जिसमें लगभग 240 हरिजन छात्र/ छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2 धर्मार्थ चिकित्सालय आलमगिरि गंज अथवा परसाखेड़ा में स्थित हैं। जिसमे



मरीज प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं। पिछले 14 वर्षों से विकलांगता निवारण सर्जरी कैम्प का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 70-80 मरीजों के सफल ऑपरेशन भी किये जाते हैं। इस कैम्प में लगभग 20 लाख का खर्च प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संस्था एक मेगा ब्लड डोनेशन कैम्प भी लगाती है। जिसमें लगभग 90 से 150 यूनिट तक ब्लड आई.एम.ए. व डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दिया जाता है। बरेली जिले के लगभग 22 शिशु मन्दिर व विद्या मन्दिर के 300 शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा भी अन्य सेवाकार भी प्रत्येक वर्ष किये जाते हैं। ओजोन ऑक्सीजन थैरेपी चिकित्सा शिविर देश में प्रथम बार घुटनों के प्रत्यारोपण से छुटकारे हेतु क्लब द्वारा एक ओजोन ऑक्सीजन थैरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन दिनांक एक व दो मार्च को एस0एस0 हॉस्पिटल (रिठौरा), पीलीभीत रोड, बरेली में किया जा रहा है। यह एक जर्मन तकनीक है, जिसके जानकार, चिकित्सक सबसे कम भारत देश में है। इस शिविर में भारत के जाने माने हड्?डी रोग विशेषज्ञ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डाॅ0 आर0ए0 अग्रवाल द्वारा ओजोन चिकित्सा थैरेपी द्वारा की जायेगी। इस उपचार से नी-ज्वाइन्ट रिपलेसमेंट को रोका जा सकता है। इस चिकित्सा शिविर के लिए लगभग 160 मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। डॉक्टरों की टीम द्वारा चयनित मरीजों के ही ऑपरेशन इस शिविर में किये जायेंगे। यह एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें मशीन द्वारा ओजोन ऑक्सीजन गैस का ट्रीटमेंट एवं कुछ इंजेक्शन लगाये जायेंगे। एक केस में लगभग 25 से 30 मिनट लगेंगे तथा लगभग 30 मिनट आराम करने के उपरांत मरीज घर जा सकेंगे। इसका कोई साईड इफेक्ट नहीं है। मरीज को कुछ दवाइयां खानी होंगी और घर पर ही कुछ एक्सरसाईज करनी होगी। इस उपचार के उपरान्त जीवन पर्यन्त घुटना बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इस शिविर में मरीजों के रहने व खाने-पीने व दवाइयों आदि की व्यवस्था क्लब द्वारा की गई कार्यक्रम दौरान श्री कुमार अनिल अग्रवाल, अरुण भार्गव मुकेश अग्रवाल ,धीरज कुमार अग्रवाल, कैप्टन बाई पी सिंह उदित गोयल ,धीरज मित्तल अनुपम, तरुण अग्रवाल, राकेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे ।।

कस्बे के मोहल्ला नील रोज पर लगे वाटर कूलर से हर समय पानी देने पर की शिकायत

क्यूँ न लिखूँ सच -अश्वनी नामदेव

झिंझाना। कस्बे के मोहल्ला नीला रोजा पर लगे वाटर कूलर से हर समय पानी बहने की शिकायत की



मोहल्ले वालों ने नगर पंचायत से की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे पीने का साफ हजारों लीटर पानी नाली में जा रहा है। जल है तो कल है, जल को व्यर्थ न बहाएं, ऐसे स्लोगन सिर्फ सुनने और कहने में ही अच्छे लगते हैं। इसके विपरीत कई दिनों से कस्बे के मोहल्ला नीला रोजा स्थित चौराहे पर नगर पंचायत द्वारा लगाए गए वाटर कुलर से

लगातार पीने का पानी हर समय बह रहा है। मोहल्ले के फरीद, अनवर, जुनैद, मुनव्वर, इसरार, आरिफ खान, राशिद, तौफीक ने नगर पंचायत को वाटर की टोंटी से पानी बहने की शिकायत की, लेकिन आजतक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नगर पंचायत की लापरवाही से पीने का साफ हजारों लीटर पानी प्रतिदिन गंदी नाली में व्यर्थ बह रहा है।

क्षेत्र पंचायत की मीटिंग ब्लॉक परिसर में आयोजित की गई

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली कांधला मुख्य अतिथि चौधरी वीरेंद्र सिंह माननीय विधायक,विधान परिषद उत्तरप्रदेश



अध्यक्षता–डा विनोद मलिक माननीय अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत कांधलाबैठक जिसमें मुख्य अतिथियों का फूल मालव एवं गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया एजेंडा-2024-25 में जो कार्य क्षेत्र पंचायत से पूर्ण हुए उनके विषय में बताया गयाअगले वर्ष की कार्यायोजना में जो कार्य कराए जाएँगे, उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गयाइसके सामृहिक विवाह अलावा योजना, किसान निधि,पेंशन,आवास जैसी महत्वपूर्ण

योजनाओं के विषय में भी अवगत कराया गयाइस मौके पर ग्राम प्रधान,सदस्य क्षेत्र पंचायत संदीप

अग्रवाल जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद शामली अंशुल चौहान खंड विकास अधिकारी कांधला शामली विनय कुमार तिवारी मुख्य विकास अधिकारी शामली जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान शामली मौजूद रहे



प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए सम्पर्क करे- 9027776991

संक्षिप्त समाचार

03 मार्च को केवीसी उझानी में होगा कृषि मेले का आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच

आज जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य पश्चिम एग्रोकलाईमेटिक मैदानी जोन का एक दिवसीय किसान मेला आगामी 03 मार्च 2025 को प्रात: 10:00 बजे से कृषि विज्ञान केन्द्र उझानी परिसर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जनपद के किसानों से इस मेले का लाभ लेने का आवाहन किया। उन्होंने बताया कि कार्यकम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मा0 श्री बी0एल0 वर्मा होंगे। कार्यकम में जनपद बरेली, शाहजहाँपुर, अमरोहा, सम्भल, सीतापुर, एवं बदायुँ के प्रगतिशील व अचीवर कृषक, कृषि , उद्यान , पशुपालन , मत्स्य , रेशम , सहकारिता , एग्रो , सिचाई , लघु सिचाई, विभागो के अधिकारी, बैंकर्स, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक भी भाग लेंगे, कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी एवं कृषकों की समस्याओं का निदान भी किया जायेगा।

गाजा तस्कर एक युवक को मटेरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच -अमरीक सिंह

बहराइच जिले में गांजे की आड़ में बिक रहा था अवैध चिप्पड़ ! शंकरपुर चौराहा पेट्रोल टंकी के पास छुप-छुप कर बेची जा रही थी अवैध गांजा चिप्पड़ ! थाना प्रभारी मटेरा मदनलाल के द्वारा गठित टीम की नेतृत्व में की गई छापेमारी में 653 ग्राम गांजा के साथ नीरज कुमार को किया गिरफ्तार! गंजा तो पकड़ा गया पर चिप्पड़ छुपाने में उस्ताद बना चिप्पड़ कारोबारी ! गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान एघरा थाना खैरीघाट का है निवासी बताया

आठवीं के छात्र -छात्राओं की विदाई समारोह में जूनियर छात्र-छात्राएं हुयीं भावुक

क्यूँ न लिखूँ सच

बरेली । विकास खंड क्यारा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवीनगर में वृहस्पतिवार को आठवीं के छात्र -छात्राओं के विदाई समारोह

का कार्यक्रम आयोजित किया गया ।इस दौरान छात्र -छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रधानाध्यापिका



रेनू गुप्ता ने छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उनके बेहतर प्रदर्शन पर उन्हें पुरस्कृत भी किया। इस दौरान वे भावुक हो गईं।और बच्चों को गले लगाकर एक मां जैसा दुलार करते हुए कहा-आप सब जीवन में और ज्यादा मेहनत कर आगे बढ़ना जिससे विद्यालय, गांव और परिवार तथा देश का नाम रोशन हो।कक्षा सात के बच्चों ने अपने सीनियर साथियों के साथ बिताए वक्त को याद कर सबको भावुक कर दिया। सभी बच्चों एवं आगनंतुकों ने विद्यालय परिसर में भोजन ग्रहण भी किया।इस मौके पर मनोहर लाल सागर ,ऋचा, बलवीर सिंह,ऋतु ,प्रधानपति सलीम आदि सहित तमाम स्टाफ मौजूद रहा।रहे ।

श्री खाटूश्याम मंदिर में मनाया गया वार्षिकोत्सव, भंडारा हुआ

क्यूँ न लिखूँ सच

बरेली रिठौरा ानगर के मोहल्ला ठाकुरद्वारा में श्री खाटूश्याम मंदिर

वार्षिकोत्सव में फाल्गुन महोत्सव बड़े ही हर्षों ल्लास के साथ विभिन्न सां स्कृतिक कार्यक्रमों के



गया इस दौरान छप्पन भोग, फाल्गुन होली,रंग वर्षा,भव्य श्रृंगार,इत्र वर्षा भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया इस दौरान सांसद छत्रपाल गंगवार,अनिल कुमार गुप्ता ,सर्वेश गुप्ता,, ऋषभ गुप्ता, मोहित गुप्ता,राजेश कुमार गुप्ता, कमलेश गुप्ता, संजीव गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, बीनू गुप्ता प्रदीप कुमार गुप्ता, सर्वेश गुड़ू पाण्डेय, रामकृपाल पाण्डेय, सिहत भारी संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे।

महाशिवरात्रि के अवसर पर एसएसबी 62वीं वाहिनी में भव्य धार्मिक आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती - अमरेन्द्र कुमार वरुण, कमांडेंट, 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) भिनगा



नेतृत्व महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वाहिनी मुख्यालय स्थित शिव मंदिर में श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाहिनी के समस्त अधिकारी, जवान एवं संदीक्षा सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव के जलाभिषेक

और विधिवत पूजा-अर्चना से हुई। इसके पश्चात शिव विवाह कथा का आयोजन किया गया, जिसमें शिव-पार्वती के पावन मिलन की गाथा का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा के उपरांत सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने सायं आरती में भाग लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें वाहिनी के समस्त कार्मिकों एवं संदीक्षा परिवार के सदस्यों व बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कमांडेंट अमरेन्द्र कुमार वरुण ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह पर्व हमें कर्तव्यनिष्ठा और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। उन्होंने सभी कार्मिकों से राष्ट्र सेवा में पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम में निरूपेश कुमार, उप कमान्डेंट, श्री पियूष सिन्हा, उप कमान्डेंट, गोबर्धन पुजारी, उप कमान्डेंट, अमित शर्मा, सहायक कमान्डेंट के साथ वाहिनी के अन्य जवान और संदीक्षा परिवार के सदस्य व बच्चे उपस्थित रहे।

फाइलेरिया रोग से बचाव एवं नियंत्रण के लिए डीईसी एवं एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई

सूरजपुर- फाइलेरिया (हाथी पांव) बीमारी संक्रमित मच्छर के काटने से किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है। यह संक्रमण लिम्फैटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, अगर इससे बचाव न किया

जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। इससे ग्रसित लोगों को अक्सर सामाजिक बोझ सहना पड़ता है। उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इस बीमारी से बचाव के लिये आज 27 फरवरी से विशेष अभियान दवा खिलायी जा रही है।

ऋम



माध्यमिक शाला पतरापाली में मितानिन सरोज पटेल एवम सोनिया सिंह के द्वारा फाइलेरिया की गोली खिलायी गयी। शिक्षक योगेश साहू ने बच्चों को बताया कि फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित है। गोलियों के सेवन से हाथीपांव व हाइड्रोसील जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है यह इन बीमारियों से बचाने में मदद करती है। रक्तचाप, शुगर, अर्थरायटिस या अन्य सामान्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को भी ये दवाएं खानी हैं। सामान्य लोगों को इन दवाओं के खाने से किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। अगर किसी को दवा खाने के बाद उल्टी, चक्कर, खुजली या जी मिचलाने जैसे लक्षण होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि उस व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के परजीवी मौजूद हैं। जोकि दवा खाने के बाद परजीवियों के मरने के कारण उत्पन्न होते हैं। आज प्राथमिक शाला के 19 एवम माध्यमिक शाला के 32 बच्चों ने फाइलेरिया की गोली खाई। शिक्षकों ने पहले बच्चों को गोली खाकर दिखायी फिर सभी बच्चों ने गोली खाया।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तकनीकी सहायक के 02 रिक्त पद हेतु कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार 12 मार्च को

सूरजपुर- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तकनीकी सहायक के 02 रिक्त पद ऋमशः

अनारक्षित (मुक्त) एवं अनुसूचित जनजाति (मुक्त) के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में पात्र/अपात्र सूची जारी कर 09 जनवरी तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। पात्र/अपात्र की संशोधित सूची के विरूद्ध कार्यालय को निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त समस्त दावा आपत्तियों का चयन समिति द्वारा सम्यक रूपेण निराकरण किया गया है। निराकरण उपरान्त निराकरण सूची/अपात्र



अभ्यर्थियों की सूची तथा पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई है। आवेदक उक्त समस्त सूची का अवलोकन जिले के वेबसाईटwww.surajpur.nic.in/www.surajpur.gov.in तथा जिला पंचायत सूरजपुर के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु जारी मेरिट सूची में से अनारक्षित (मुक्त) एवं अनुसूचित जनजाति (मुक्त) वर्ग के लिए ऋमशः 15-15 गुना अभ्यर्थियों को 12 को मार्च कौशल परीक्षा 10:30 बजे से 11:00 बजे तक एवं साक्षात्कार 03:00 बजे समय सारणी अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

मूर्ति चोरी कर खण्डित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती - श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों



के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के ऋम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा के अनावरण व घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी हेतु टीम गठन कर मुकदमे के सही अनावरण व गिरफ्तारी हेत् निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश ⁄ निर्देश के ऋम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी भिनगा

संतोष कुमार के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष सौरभ सिंह थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम के अथक प्रयास से मुखबिर की सूचना पर सदानन्द की बाग अहिरन देवरा दा0 देवरा से मूर्ति चोरी कर मूर्ति तोड़ने वाला अभियुक्त हवलदार सोनकर पुत्र कामता प्रसाद निवासी अहिरन देवरा दा0 देवरा थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के तीन टुकड़े बरामद किए गए जिसके फलस्वरूप मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) \mathbf{BNS} की बढ़ोत्तरी की गई। घटना 11/12 फरवरी 2025 की रात में अज्ञात व्यक्ति द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा के कोटहिन माता मन्दिर की चबूतरे से लक्ष्मी माता की मूर्ति उखाड़कर ले जाकर आशाराम की बाग में मूर्ति के दोनों हाँथ कोहनी से तोड़कर व मूर्ति के आभामण्डल का कुछ अंश तोड़कर कहीं फेंक दिया था जिसके थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था जांच से प्रकाश में आये अभियुक्त हवलदार सोनकर पुत्र कामता प्रसाद निवासी अहिरन देवरा दा0 देवरा थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार किया गया।

कार में घुसी अनियंत्रित बाइक, पांच घायल

क्यूँ न लिखूँ सच -अरविन्द कुमार यादव

श्रावस्ती - बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत काजीपुरा मोहल्ला निवासी मो आजम अपने

परिवार के दानिया, इरशाद अहमद पुत्र मो. फकीर के साथ कार में सवार होकर जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमुनहा बाजार स्थित अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। वहीं हरदत्तनगर गिरन्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आला गांव निवासी मारूफ (24) पुत्र सगीर अहमद के साथ मल्हीपुर थाना क्षेत्र के कलामुद्दीन (20) पुत्र वारिस अली जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर साप्ताहिक बाजार बनगई से सामान की खरीदारी करके वापस घर को लौट रहे थे। जमुनहा-बहराइच



राजमार्ग पर जमुनहा पुलिस चौकी क्षेत्र के बनगई गांव के पास पहुंचते ही सामने से आ रही कार में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर भिड़ गई। जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना में कार सवार इरशाद, मो आजम व तीन वर्षीय दानिया को भी चोटें आई। जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस व पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस व पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हीपुर में भर्ती कराया और इरशाद, मो आजम व दानिया का स्थानीय निजी चिकित्सक के यहां इलाज किया जा रहा है।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ के तहत सरस्वती शिशु मंदिर सूरजपुर में किया गया जागरूकता कार्यक्रम

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के दिशा निर्देश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रमेश साहू के मार्गदर्शन मे बेटी बचाओ बेटी पढाओ के अंतर्गत 24 फरवरी से 08 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन जिले में विभिन्न स्तरों में आयोजित किया जाना है। इसी ऋम में कार्यऋम का शुभारंभ जिले के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में किया गया, कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी श्रीमती इंन्द्र कुमारी तिवारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल ने लिंग भेद, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराध बाल विवाह विषय पर अपने विचार रखे श्री मनोज जायसवाल ने बच्चों को भ्रूण हत्या के संबंध में बताया

कि हमारे देश में लैंगिक असमानता इतना बढ़ गया है कि आज कई समाज में लड़िकयों की कमी महसूस हो रही है लिंग परीक्षण कराना गैर कानूनी जुर्म है उसके बाद बावजूद लोग दो बेटी होने के बाद तीसरी संतान पुत्र हो सके इसके लिए लिंग परीक्षण कराते हैं और तीसरी संतान लडकी होने पर गर्भ में ही मार दिया जाता है यह पहले सिर्फ शहरों में कराया जाता था, लेकिन अब गावं गांव में फैल गया है। हमे अपने घर में जागरूक करना है बेटियां किसी से कम नहीं है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी महिला है महिलाएं सभी सेक्टर में आगे आ रही हैं सभी क्षेत्र को आगे बढ़ रही है पढ़ने में आज लडिकयां लड़को से आगे है देश के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा यू.पी.एस.सी. में छात्राएं कई वर्ष से टॉप कर रही हैं आज हम शपथ लेंगे की हम अपने समाज गांव, शहर सब से लिंग भेद को हटायेंगे। बाल विवाह भी आज कल छात्राओं का कर दिया जाता है छात्राएं पढेगी तो सभी बीमारी का इलाज केवल और केवल शिक्षा में है। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे सभी समस्या रूपी ताला खुलने वाला है। खूब पढे ओर खूब बढें। श्रीमती इन्द्र कुमारी तिवारी ने छात्राओं को घरेलू हिंसा के संबंध में जानकारी दी। घर के अन्दर महिलाओं के ऊपर कई प्रकार सम्बंध में जानकारी दी। घर के अंदर महिलाओं के ऊपर कई प्रकार की हिंसा हो रही है। महिलाओं को दहेज प्रताड़ना का दंश झेलना पड रहा है। महिलाएं पुरुषों से प्रताड़ित हो रही है महिलाओं के सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को पांच प्रकार की सुविधाएं प्रदान किये जा रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में लिंग भेद पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमे छात्राओ को प्रमाण पत्र एवं इनाम प्रदान किया गया, छात्राओं में सवाल जवाब, प्रश्नोत्तरी भी किया गया और उन्हें कई और जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल, महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती इन्द्र कुमारी तिवारी, प्राचार्य श्री कैलाश यादव, जितेन्द्र दुबे, शोभा सिन्हा, सरोज यादव, अनिल गुप्ता, सनद कुमार पाण्डेय, संजय राजवाडे अनिल मिश्रा बबिता खील उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

किशोरी से छेड़छाड़ का मुकदमा दज

क्यूँ न लिखूँ सच -लवकुश ठाकुर

अलीगढ़ हरदुआगंज। थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को कांवड़ लेकर आते समय रास्ते में दबोचकर छेड़छाड़ की गई। आरोप है कि दो लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। किशोरी के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। साधुआश्रम चौकी क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि मंगलवार को उसकी 14 वर्षीय बेटी गंगाघाट से जल लेकर आ रही थी। साधुआश्रम-पनेठी रोड से गुजरने के दौरान एक नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति किशोरी को चिकित्सालय की बिल्डिंग में खींच ले गए और छेड़छाड़ करने लगे। बेटी के शोर मचाने पर पीछे आ रही महिलाओं के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले।

मृतक शिक्षक की पत्नी होने का दावा, दो सगी बहनों की हाईकोर्ट में याचिका

क्यूँ न लिखूँ सच -लवकुश ठाकुर

अलीगढ़ में एक मृतक शिक्षक की पत्नी होने का दावा करते हुए दो सगी बहनों ने फंड, बोनस, पेंशन और अन्य लाभों के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) से दो सप्ताह में शिक्षक की संपूर्ण सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करने को कहा है और अगली सुनवाई 6 मार्च को तय की है। चंद्रदेव शर्मा, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, का एक मई 2021 को निधन हो गया था। याचिकाकर्ता गौरी देवी ने दावा किया कि उनकी सेवा पुस्तिका में उनका नाम दर्ज है, जबकि स्नेहलता शर्मा ने खुद को कानूनी पत्नी बताते हुए दावा किया कि सेवा रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ कर रही है।

16वीं पुण्य तिथि के अवसर एक विशाल भंडारे का आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता शामली स्वर्गीय श्री सुशील मुंजल की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर



पर माता रानी विशाल भंडारे का आयोजन शामली के शिव चौक पर आ यो जित किया गया इस

श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस भंडारे में भक्त जनों के ालए कढ़ा चावल वह अन्य प्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों को सुबह 10~00 बजे से वितरण शुरू किया गया और माता रानी की इच्छा तक यह भंडारा चलाता रहा

नाली न होने से सड़क पर भरा रहता गंदा पानी

क्यूँ न लिखूँ सच -वीरेंद्र कुमार वर्मा

श्रावस्ती - जमुनहा विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमरपुरवा के मजरा चमरपुरवा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय

द्वितीय के बगल से डाकघर तक जाने वाले मार्ग पर गंदा पानी भरने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से



विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र जाने वाले छोटे-छोटे बच्चे अक्सर फिसलकर गिर जाते है, जिससे वे चोटिल हो रहे है। गांव के निवासी वेद प्रकाश पांडेय, वीरेंद्र आर्य, कलम नाथ साहू, ओमकार नाथ मिश्रा सहित अन्य ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर शीघ्र नाली निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बच्चों और अन्य राहगीरों के लिए परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के समय यह समस्या और गंभीर हो जाती है। नाली के अभाव में गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे न केवल दुर्गध और गंदगी फैलती है, बल्कि संऋामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन इस ओर जल्द ध्यान दे और नाली का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाए।

हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र वेनिक क्यूँ न चिख्रूँ सच

को आवस्यकता है उत्तर प्रदेश . उत्तराखंड मध्य प्रदेश ,दिल्ली बिहार पंजाब छतीसवढ् राजस्थान आदि सभी राज्यों से रिपोर्ट्स जिला च्यूसो विज्ञापन प्रतिनिधि की

दृष्टा महाराज के

सानिध्य में प्रथम

महाशिवरात्रि के

पावन अवसर पर

12 ज्योतिर्लिंग

का भव्य श्रृंगार

महिला विंग पूनम

गर्ग, शालू बंसल,

बबीता गुप्ता, पूजा,

शिल्पी बंसल,

स्वाति, मिथिलेश,

रिचा बंसल, मनीष

संगल, शिखा

गोयल, पिंकी

शर्मा, खुशी आदि

संयुक्त निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच -नीरज कुमार

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने जिला कारागार का

संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्दे श दिए। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने कारागार अस्पताल में भर्ती कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के निर्दे श दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने



विभिन्न बैरकों, अस्पताल, भोजनालय, भंडार कक्ष सहित जेल के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही, जेल परिसर में साफ-सफाई बेहतर मिली और कैदियों के नियमित मेडिकल चेकअप कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कारागार परिसर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री प्रवेश न कर सके। इसके लिए रोस्टर बनाकर नियमित जांच-पड़ताल करने के निर्देश दिए गए, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बंदियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुधारात्मक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुधारात्मक गतिविधियों से कैदियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, जिससे वे भविष्य में समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इस अवसर पर जेल अधीक्षक नीरज देव जेल चिकित्सक राहुल बर्मन कारापाल प्रदीप कुमार

जिले में आयुष विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुर्विद्या का विभिन्न स्कूलों में किया जा रहा आयोजन

सूरजपुर- युष मिशन अन्तर्गत संचालनालय आयुष रायपुर के निर्देशन में आयुष विभाग के राष्ट्रीय

कार्यक्रम आयुर्विद्या का जिले के विभिन्न स्कूलों में आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में बचपन से आयुर्वेद के प्रति जागरूकता का बीज बोना है। गलत जीवन शैली एवं खानपान से उत्पन्न रोगों से बचाव करना है। इसके साथ किसी रोग की स्थिति में विद्यार्थियों की पहचान कर अपने अभिभावकों के साथ पास के आयुर्वेद संस्थाओं या उच्च केन्द्रों



में उपचार हेतु भेजना है। विद्यालयों में कक्षा स्तर के अनुसार विभिन्न विषयों पर जागरूकता जैसे स्वच्छता, हस्तप्रक्षालन, दिनचर्या, पोषक आहार, आहार विधि, अच्छा आचरण, ऋतुचर्या, दैनिक जीवन में योग एवं व्यायाम का महत्व, मानसिक स्वास्थ्य, बालिकाओं में माहवारी, रक्ताल्पता, किशोरावस्था सम्बंधी समस्याएं, शारीरिक प्रकृति के विषय में सचेत करना है। इसके साथ आसपास पाये जाने वाले औषधीय, पेड़-पौधे जैसे नीम, ऑवला,जामुन, गिलोय, ऐलोवेरा, तुलसी, हरिद्रा आदि के उपयोग से परिचित कराना है, जिससे बच्चे इसे लगाने के लिए भी प्रेरित हो। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. रमाकांत शर्मा के मार्गदर्शन में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. निकिता टोप्पो द्वारा जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतरापाली में आयुर्विद्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे 32 विद्यार्थीयों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जिसमें 10 विद्यार्थी व्याधिग्रस्त पाए गए। कार्यक्रम में अनिता सिंह, कृष्ण कुमार यादव, योगेश साहू, सरिता सिंह, एम पी डब्लू तुलेश्वर सिंह उपस्थित रहे।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के निर्देशानुसार कलेक्टर सूरजपुर के दिशा-निर्देश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के



अवसर पर 24 फरवरी से 08 मार्च तक जिले में ''बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ'' योजना के क्रियान्वयन अंतर्गत लिंग आधारित भूण हत्या को रोकने बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान के संबंध में जिला स्तर, सेक्टर स्तर, परियोजना स्तर एवं

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत स्थानीय प्रशासन, विद्यालयों, विभिन्न महिला एव सामुदायिक समूहों सहित सभी संबंधित हितधारकों को सम्मिलित करने हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। ग्लोबल पब्लिक स्कुल सूरजपुर में छात्र-छात्राओं को महिलाओं को शसक्त बनाये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, बाल अपराध, भ्रुण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रथा, बालिकाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध के साथ-साथ मासिक धर्म स्वच्छता आदि महिलाओं से जुड़े विषयों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को नशे से दूर रहने, मोबाईल से दूरी बनाये रखने के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर बच्चों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, लैंगिक समानता पर निबंघ एवं चित्रकला प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं। इस अवसर पर महिला संरक्षण अधिकारी, सखी वन स्टाप सेंटर, स्वास्थ्य विभाग, विद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

जिला कारागार का डीएम और एसपी ने किया परम श्रद्धेय अरविंद दृष्टा महाराज ने सदाशिव द्वादश विशुद्धानंद ज्योतिर्लिंग की महा आरती की

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली महाशिवरात्रि के अवसर पर देर रात सिद्ध पीठ श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम शामली पर भव्य सदाशिव द्वादश विशुद्धानंद ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। परम श्रद्धेय अरविंद



ने बहुत सुंदर, अलौकिक श्रंगार किया। महाराज ने श्रंगार करने वाली सभी महिलाओं को सदाशिव द्वादश विशृद्धानंद ज्योतिर्लिंग स्मृति चिन्ह के रूप मे आशीर्वाद प्रदान किया। अरविंद दृष्टा महाराज ने महा आरती की। और सबको परम आशीर्वाद देते हुए पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और कहां की सदाशिव आप सभी के परिवार में सुख शांति एवं आपको अपनी भक्ति प्रदान करें। जिससे आपका जीवन धर्म की ओर बढ़कर भक्ति में हो जाए। आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। आप सभी के सहयोग से आपने जो आहृति इसमें डाली है। वह हमेशा दिखाई देगी। महा आरती में अपार भीड़ रही। प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर अनिल संगल,घनश्याम दास तायल, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, यशपाल पवार, मुकेश गर्ग एडवोकेट, प्रदीप बंसल, वीरेंद्र मित्तल, नरेंद्र गोयल, राजेंद्र गुप्ता, अजय गर्ग, डॉ मोहनलाल गुप्ता, रवि संगल, शिवकुमार मित्तल आदि मौजूद रहे।

कलेक्टर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ

सूरजपुर- जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस गतिविधि कार्यक्रम अंतर्गत दवा सेवन का शुभारंभ आज कलेक्टर श्री एस

जयवर्धन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डी एस बघेल द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई में किया गया। इस शुभारंभ कार्यक्रम में कलेक्टर एवम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विद्यार्थियों के साथ फाइलेरिया रोग से बचाव के लिए स्वयं दवा सेवन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 27 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा दवा सेवन कराया जाएगा। इस कार्यक्रम अंतर्गत 27 फरवरी से 2 मार्च तक बूथ लगाकर आंगनवाड़ी, स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थानों में दवा सेवन



करवाया जाएगा । 3 मार्च से 10 मार्च तक सामुदाय स्तर पर घर-घर भ्रमण कर दवा सेवन कराया जाएगा । 11 मार्च से 13 मार्च तक मॉप अप राउंड के तहत छूटे हुए जनसंख्या को दवा सेवन कराया जाएगा । इसके अलावा 27 फरवरी से 13 मार्च तक मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य निजी चिकित्सालय में ओपीडी के पास बूथ लगाकर दवा सेवन कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 वर्ष से छोटे बच्चों गर्भवती माता एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिल देव पैकरा, डॉ. प्रिंस जायसवाल जिला कार्याऋम प्रबंधक, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. दीप कुमार, व्ही.बी.डी. सलाहकार श्री विवेक सदन नाविक, डी.एम.सी. श्री धीरज कुमार सिंह तथा पी.एच.सी. प्रभारी मीना सोनी, मलेरिया टेक्निकल सुपरवाईजर श्री सी.के. माहेश्वरी, ज्वाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य श्री जॉली टॉमी एवं शिक्षक, छात्र-छात्राए उपस्थित रहें।

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन ने निर्माणाधीन गुरु जम्भेश्वर विश्व विद्यालय का किया भौतिक स्थलीय निरीक्षण

विश्वविद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के दिए निर्देश ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर विश्वविद्यालय निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश विशेष सचिव ने विश्वविद्यालय के सभी प्वाइंटो पर हो रहे कार्यों को मौके पर जाकर देखा तथा श्रमिकों की संख्या की ली जानकारी श्री गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने जनपद मुरादाबाद में निर्माणाधीन गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय का गहनतापूर्वक स्थलीय निरीक्षण किया। विशेष सचिव ने विश्व विद्यालय की चारों तरफ की वाउंड्रीबाल का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था से पिलर और पाईल के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि जंग लगे सरिया का उपयोग न किया जाये और बिल्डिंग का स्ट्रक्कर खड़ा करने में तेजी लाये। विशेष सचिव ने एडिमन ब्लाक, एकाडेमिक, क्यूसी लैब, ब्लाक ए, वीसी रेजीडेंस, सर्वेन्ट क्वाटर, फैसिलिटी सेन्टर, गर्ल्स हॉस्टल, बायस हॉस्टल आदि सभी का मौका मुआयना किया और कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त की। श्रमिकों की संख्या कम पाये जाने पर उन्होंने निर्देशित किया कि श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर विश्व विद्यालय निर्माण की कार्य प्रगति को बढ़ाया जाये। उन्होंने सभी श्रमिकों के पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए और विश्वविद्यालय में बनने वाले आडीटोरियम की भी जानकारी प्राप्त की। निर्माण कार्य में टेहरी महाशक्ति का सरिया उपयोग में लाये जाने पर उन्होंने कहा कि सेल, टाटा और बिंदल का सरिया लगाना चाहिए। कार्यदायीं संस्था ने बताया कि टेहरी महाशक्ति भी सरकार द्वारा एप्रूव है। विशेष सचिव ने क्यूसी लैब में निर्माण सामग्री की टेस्टिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। विशेष सचिव ने ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि विश्व विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने सभी से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए कार्यदायीं संस्था को राज्य विश्वविद्यालय का काम समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कुलसचिव श्री शशि भूषण, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग श्री राजेन्द्र बहादुर, जे0ई0 श्री अरुण कुमार, ए०ई० श्री रमेश वर्मा, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहें।

संक्षिप्त समाचार

www.knlslive.com

ऋषि बौद्ध उत्सव पर आर्य समाज शामली द्वारा आयोजित यज्ञ

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली ऋषि बोध उत्सव पर आर्य समाज शामली द्वारा आयोजित यज्ञ के पांचवे दिन यज्ञ सेंट आर. सी. कॉन्वेंट स्कूल स्थित प्रधानाचार्य निवास के प्रांगण में हुआ जिसमें मुख्य यजमान श्रीमती मीनू संगल एवं श्री अरविंद संगल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शामली रहे, सभी अतिथियों एवं श्रोतागणो का आभार व्यक्त करते हुए श्री अरविंद संगल ने कहा कि यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है यज्ञ के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं देव पूजा, संगतिकरण एवं दान, तथा यज्ञ का वैज्ञानिक प्रभाव भी है यज्ञ से जहां मन मस्तिष्क शुद्ध होता है वहीं पर्यावरण का शुद्धिकरण भी होता है, भजनोपदेशक पंडित सौमित्र अंगिरस ने सत्संग एवं संगतिमय उपदेश करते हुए कहा कि समाज में योग्यतानुसार सबको साथ लेकर चलना ही उन्नति का मूल मंत्र है सत्संग का मूल अर्थ सत्य को ग्रहण करना एवं असत्य को छोड़ना है, इस अवसर पर प्रसिद्ध विद्वान शैलेश मुनि सत्यार्थी ने भी या परिवारों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, कार्यक्रम में सबसे पहले सुबह 5 बजे प्रभातफेरी निकाल कर आर्य समाज के पदाधिकारियों द्वारा सुबह 6 बजे यज्ञ स्थल सेंट आर. सी. कान्वेंट स्कूल शामली पर जाकर यजमान परिवार को धर्म ध्वज प्रदान किया गया जिसे यजमान परिवार ने यज्ञ स्थल के मुख्य द्वार पर फहराया तत्पश्चात सुबह 8 बजे आर्य यज्ञ आरम्भ हुआ, यज्ञ समाप्ति के पश्चात सत्संग शुरू किया गया यज्ञ एवं सत्संग में श्रीमती मीरा वर्मा प्रधान आर्य विद्या सभा शामली, श्री ज्ञानेन्द्र मलिक उप मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, प्रधान राजपाल सिंह, मंत्री नितिन वर्मा, एड सत्यप्रकाश आर्य, नरेंद्र अग्रवाल, मुकेश चौधरी, भारत संगल,श्रीमती कौशल्या आर्या, मिथलेश आर्या, अमिता आर्या, सुनीता पाल, रविन्द्र पाल सिंह मलिक, सत्यपाल सिंह, विजयपाल सिंह आर्य, योगाचार्य नरेंद्र सिंह आर्य आदि उपस्थित रहे ।

किरण कोतवाली क्षेत्र के गांव मलकपुर एसओजी टीम की हुई मुठभेड़ एक बदमाश गोली लगने से घायल

क्यूँ न लिखूँ सच -मनीष मित्तल

शामली कैराना कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर गाव के जंगल मे



दिनदहाड़े कै राना पुलिस व ए स ओ जी टीम की हुई मुठभेड़, एक बदमाशा गोली लगने

दरअसल आपको बता दे कि ग्राम मंडावर मे दो पक्षों मे कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा। जिसमें दोनों पक्षो मे आमने सामने फायरिंग हुई थी। घटना के बाद पुलिस के द्वारा काफ़ी लोगों को जेल भेजा गया था, जिसमें एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम बिल्लू उर्फ़ बिलाल सन ऑफ़ अय्यूब बताया जा रहा है,

महाकुंभ पर्व के अवसर पर जिला जेल के कैदियों के लिए महाकुंभ स्नान का किया गया आयोजन

क्युँ न लिखुँ सच

सूरजपुर- जिला जेल में प्रयागराज में जारी महाकुंभ पर्व के अवसर पर आजकैदियोंके लिए महाकुंभ सामूहिक पवित्र स्नान का आयोजन किया गया। कैदियों के सामूहिक पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज के संगम घाट से पवित्र गंगाजल लाया गया एवं जेल के प्रांगण में इसके लिए खास इंतजाम किया गया था जिसमें जिला जेल सूरजपुर में परिरुद्ध 347कैदियोंने पवित्र स्नान में भाग लिया, जिससेकैदियों में महाकुंभ स्नान की श्रद्धा एवं उत्साह देखने को मिला। जेल में प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए गंगाजल से स्नान करकैदियोंको खुशी मिली एवंकैदियोंके द्वारा इस आयोजन के लिए जेल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए 9027776991

knlslive@gmail.com

benefits strawberries, it is also diabetes beneficial for

patients

Strawberry is a juicy fruit which is red or pink in colour. People like its slightly sour-sweet taste a lot, but do you know that not only its taste but its properties are also amazing. Eating strawberries gives many health benefits, knowing about which you will be surprised. Let's why eating strawberries is beneficial. Anti-oxidants are found in strawberries. It is also a good source of vitamin-C. Eating strawberries also



benefits the skin a lot. Strawberry is a tasty and healthy fruit, which is no less than a "superfood". It is a small, juicy, red colored berry, which is known for its unique taste and healthy properties. Strawberry is mostly cultivated in cold areas and it is grown the most in America and Europe. In India, it is cultivated mainly in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and some parts of Maharashtra. Strawberries are rich in vitamin C. fiber, antioxidants and minerals, which benefit the whole health. Then what are you waiting for, let's know about some of its best benefits. What are the benefits of eating strawberries? Strengthens the immune system - Strawberries are rich in vitamin C, which helps in increasing the body's ability to fight diseases. It helps in protecting against cold and cough and other seasonal diseases. Makes the skin glowing and youthful - The antioxidants, vitamin-C and ellagic acid present in it protect the skin cells from free radicals. It helps in reducing wrinkles, lightening blemishes and improving the skin. Keeps the heart healthy - Strawberries contain a good amount of potassium and antioxidants, which keep cholesterol under control and reduce the risk of heart diseases. It also helps in controlling blood pressure. Beneficial for the digestive system - Being rich in fiber, strawberries improve digestion and are helpful in relieving constipation. It keeps the stomach light and digestion fine. Helpful in weight loss-Strawberries are low in calories and high in fiber, which helps in weight loss. It keeps the stomach full for a long time and prevents overeating. Improves eyesight-Vitamin C and antioxidants present in it help in keeping the eyes healthy. It helps in reducing the risk of cataract and other eye diseases. Helpful in preventing cancer- Strawberries contain ellagic acid and other antioxidants, which help in preventing the growth of cancer cells in the body. It protects the body from diseases by detoxifying it. Controls blood sugar level- Its glycemic index is low, which helps in controlling blood sugar level. It is a safe and healthy fruit for

Not one or two, there are 8 To increase concentration, do eating these 4 breathing exercises after waking up in the morning, stress and anxiety will also go away

Does your mind also start wandering here and there every now and then? Is it difficult to maintain focus on any one task? If yes, then it may be that your concentration power is weak. Productivity also decreases due to lack of concentration on work. Therefore, we are going to tell you 4 such breathing exercises (Breathing Exercises for concentration) which will help in

increasing concentration. There can be a lot of trouble due to low concentration power. Due to this, productivity can also decrease. Some breathing exercises help increasing concentration. In today's fast-paced world, maintaining concentration (How to Improve Focus) has become a big challenge. Be it



studies, work, or any creative work, the ability to focus helps in improving our performance. In such a situation, breathing techniques (breathing exercises) can prove to be an effective solution. These techniques not only reduce stress, but also help in increasing focus by calming the mind. Let's know about 4 such effective breathing exercises (Breathing Exercises for concentration). Deep Breathing Deep breathing is one of the easiest and effective techniques. To do this, first sit in a comfortable position. Close your eyes and breathe slowly through the nose. Try to fill the breath up to the stomach, so that your stomach expands. Then exhale slowly through the mouth. Repeat this process 5-10 times. This technique increases the flow of oxygen to the brain, which improves focus and mental clarity. Alternate Nasal Breathing Nadi Shodhan Pranayama is an old technique of yoga, which helps to calm the mind and increase focus. To do this, first sit comfortably and close the right nostril with the thumb of your right hand. Inhale through the left nostril and then close the left nostril with a finger and exhale through the right nostril. After this, inhale through the right nostril and exhale through the left. Repeat this process for 5-10 minutes. This technique balances both parts of the brain, which increases focus. 4-7-8 Breathing Technique 4-7-8 breathing technique is very effective for reducing stress and calming the mind. To do this, first sit comfortably and place the tip of the tongue behind the upper teeth. Now inhale through the nose and count to 4 in the mind. Then hold the breath and count to 7. After this, exhale through the mouth and count to 8. Repeat this process 4-5 times. This technique helps in calming the mind and increasing focus. Bhramari Pranayama- Bhramari Pranayama is a technique that helps to calm the mind and increase concentration. To do this, sit comfortably and close your eyes. Now place the fingers of both your hands on the eyes and close the ears with the thumb. After this, take a deep breath through the nose and exhale through the mouth while pronouncing "Om". Repeat this process 5-7 times. This technique calms the nerves of the brain and increases focus.

Does your child argue over every little thing? Then make him obedient in these 7 ways, he will understand the difference between right and wrong

If the child has started answering back and does not listen to anything, then handle him with love and patience. Instead of getting angry, stay calm and explain to him what is right and wrong. Praise him for his good behavior and be a good example yourself. Positive changes can be brought in the child's behavior with the right communication, love and understanding.

Let's know some effective ways understand children and make starts answering back, then it without being strict, with the understand what is right and listening to elders has become days. This behavior of the child and the process of expressing is happening continuously, it situation, it is not necessary to rather it is necessary to understanding and being article we will tell you about Listen to the child and listen to him carefully instead expressing some of his troubles, feelings and discuss them with value his words. Be calm and retort becomes frustrating for you to remain calm. If you react best way is to explain to the limits- Explain to the child done at home. Tell them that Also explain to the child what **Encourage positive behavior** your advice, praise him. Words understood this" motivate the



to explain to the child. It is very difficult to them understand. Especially if the child becomes more difficult. In such a situation, help of some tips, you can make them wrong. Children answering back and not a common challenge for many parents these can be a part of their increasing self-reliance their opinion. However, when this behavior can take the form of indiscipline. In such a be strict every time to discipline children, communicate with them by showing patient. In such a situation, today in this some effective ways to solve this problemunderstand- When the child replies back, of reacting immediately. He may be dissatisfaction or anger. Understand his him. This will make the child feel that you restrained yourself The child's anger or the parents, but still it is very important for in anger, it can worsen the situation. The child with a calm voice and patience. Set clearly what kind of behavior should be using rude language or retorting is wrong. the consequences can be if he does this. When the child behaves decently or accepts like "Well done" or "I am glad you child to adopt positive behavior. Punishment

is not necessary every time Punishment is not the solution every time. So instead of punishing, talk to the child and explain to him the impact of his behavior. For example, if he speaks in anger, explain to him that it can hurt others and spoil relationships. Be a role model yourself - Children learn by watching their parents. If they see you talking to others respectfully and patiently, the child will also learn the same. Give the right direction to their energy - Put the child's energy into some positive activity. Keep him busy in sports, creative projects or any hobby,

so that he can express his feelings properly.

www.knlslive.com

'New injuries used to show up after going home', it was not easy for Vicky Kaushal to become 'Chhava', sweated it out in 8 hours of hard work

Vicky Kaushal starrer film Chhava is making a splash at the box office. A different sense of happiness is seen on the faces of the audience coming out of the theatres after watching the movie. Today we are talking about the challenges actor Vicky Kaushal



had to face to become a Chhava on the big screen. Chhava movie is making record-breaking earnings at the box office. It was not easy for Vicky to become a Chhava on the big screen. The actor has worked very hard for this character. Chhava's name has been included in the list of the most successful films of Vicky Kaushal's career. Through this, the actor has also broken the records of many hit stars' movies. Vicky has brilliantly played the role of Maratha warrior Chhatrapati Sambhaji Maharaj on the big screen. He did a great job of sword fighting, horse riding and encouraging his army. Perhaps you will also be surprised that Vicky Kaushal prepared himself to do all this. For this, he gained weight and sweated for hours. Let us know how the actor's journey of becoming a Chhava has been and what new things he trained for this character. Chhava's journey was not easy for Vicky - Laxman Utekar's directed film is not only making money in India but also worldwide. Within 13 days, the film has set new records of collection. The special thing is that this movie is also beating hit films in terms of daily earnings. In such a situation, it becomes more interesting to know to what extent Vicky Kaushal has worked hard to show himself as Chhatrapati Sambhaji Maharaj on the big screen. Maddock Films has shared the behind the scenes video of Chhava. In this, the lead actor of the film Vicky himself tells that becoming a Chhava on the big screen was not easy for him at all. For this role, the actor went to the gym and gained weight and prepared for horse riding and sword fighting for 6 months. Apart from this, he sweated for 8 hours every day. Did Vicky go home injured from the film set? - Vicky Kaushal also revealed that after fighting the war by wielding the sword on the film set, his body used to feel tired and the marks of the sword were clearly visible on his body. When Vicky finally prepared himself for this character, Laxman Utekar said that 'I have found my child.' How did you like Vicky's acting in the film? Vicky Kaushal has fulfilled the requirements of the character brilliantly. The courage he showed in front of Aurangzeb is commendable. Apart from this, his acting has been amazing overall. The work of Akshay Khanna and Ashutosh Rana is also being appreciated.

Chhaava snatched the throne of KGF 2! Rocky Bhai's film wiped out in the earnings of the 13th day

Chhaava Box Office Day 13 Based on the drama period film, Chhaava is making a great collection at the box office even on weekdays. On the basis of which, this movie of Vicky





Kaushal is beating big films every day. Now Chhaava has left behind South superstar Yash's blockbuster film KGF Chapter 2 in earnings on the 13th day. Chhaava made a shocking collection on the 13th day - KGF 2's record collapsed - Chhaava's earnings jumped on the second Wednesday Chhaava has created a new history in Hindi cinema with its immense success. Chhaava, which earned at the speed of a bullet train from the first day of its release, will soon complete its second week of release. Even after so much time, there is no reduction in the box office collection of this movie of Vicky Kaushal. On the second Wednesday, there has been a tremendous jump in the earnings of Chhava. Due to which now this movie has defeated South cinema veteran Yash's blockbuster film KGF Chapter 2 in the collection of the 13th day. Chhava beat KGF 2 - Yash's KGF 2 was released in theaters in the year 2022 as a great offering of Kannada cinema. During that time, this movie of Rocky Bhai won the hearts of the audience and did a great business at the box office. According to the report of Saccanilk, on the 13th day of release, KGF 2 had collected more than 14 crores in all languages. But now Vicky Kaushal's Chhava has defeated KGF Chapter 2 in this matter. On the basis of the sequel, Chhava has collected 21 crores at the domestic box office on the 13th day. Which is about 3 crores more than the 12th day. In such a situation, Chhava has set a new record by beating KGF 2. Earlier, Chhava has defeated big South and Hindi cinema films like Bahubali 2, Jawaan, Pushpa and Animal in terms of earnings on a day-wise basis. The way Chhava's collection is going on. On that basis, this movie will be considered to have set a big record at the box office. Chhava will enter the 400 crore club - If the earnings of the 13th day are added, now the net collection of Chhava at the box office has reached close to 400 crores. Soon this movie will enter the 400 club. Let us tell you that Chhava has become the first highest earning film of Vicky Kaushal's career. Not only this, this movie has also gone ahead in terms of drama period films.

'Gossip Girl' Michelle Trachtenberg dies at the age of 39, body found in apartment

Michelle Trachtenberg Death A very bad news is coming out at this time about Michelle Trachtenberg, one of the famous Hollywood actresses. Michelle, who made a place in the hearts of fans with shows like Gossip Girl (Gossip Girl Movie) and many great films, has died at the age of 39. The body of the actress has been found in a luxurious apartment in New York. Michelle

Trachtenberg was a famous Hollywood of 39 - Michelle was famous for these Hollywood cinema at this time. Famous passed away. After the news of the death of has been a sensation in the entertainment is no longer among us. According to the Trachtenberg has been found in a luxurious investigation in the matter. However, the revealed yet. Gossip Girl Michelle who started her acting career as a child and TV world. According to the BBC on 26 February. Michelle lived in her luxury Park South, New York. Her dead body has Michelle Trachtenberg has caused a wave A mountain of grief has fallen on her family police, it has been learned that her death circumstances. However, nothing is clear yet Michelle Trachtenberg looked very changed expressed concern about her health. There transplant done. Michelle will be and fans are mourning the death of Michelle



actress, said goodbye to the world at the age movies. Very bad news is coming out from actress Michelle Christine Trachtenberg has the actress at the age of just 39 came out, there world. No one is able to believe that Michelle information received, the body of Michelle apartment in New York. Police have started cause of the actress' death has not been Trachtenberg dies - Michelle Trachtenberg, artist, was one of the veteran actresses of films report, the news of her death has come to light apartment at One Columbus Place in Central now been found here. The sudden death of of mourning in the Hollywood cinema world. and fans. After the initial investigation by the has not happened under any suspicious about the cause of death. For the past time, in her posts on Instagram, due to which fans is also news that she also got her liver remembered for these movies- Many celebs Trachtenberg on social media. Her saying

goodbye to the world in this way is being considered a big setback for Hollywood. If we look at Michelle's acting career, she started acting in childhood through a TV ad. After this, she gained popularity with her brilliant performance in the English film industry and on the small screen between the 1990s and 2000s. Her major films and TV shows are as follows- List of films- Melissa- Inspector Gadget Euro Trip Black Christmas Cop Out Sexy Evil Genius TV Shows- Law and Order Space Case Buffy the Vampire Slayer Six Feet Under Gossip Girl Let us tell you that Michelle will be remembered for her brilliant contribution in the Spiral film for the last time.